



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

मार्च 30, 2012

खंड 27

संख्या 13

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

मद	2011	2012		घट – बढ़	
	25 मार्च	16 मार्च	23 मार्च #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	9,421.24	10,610.26	10,585.19	-25.07	1,163.95
संचलन में नोट	9,421.07	10,610.11	10,585.03	-25.08	1,163.95
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	0.17	0.15	0.16	0.01	-0.01
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	62.93	710.31	665.29	-45.01	602.37
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	0.41	0.42	9.97	9.55	9.56
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,191.63	2,974.39	3,232.71	258.31	41.08
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	34.94	31.69	32.65	0.97	-2.28
अन्य बैंक	152.84	146.34	143.17	-3.17	-9.67
अन्य	122.60	105.89	111.58	5.69	-11.02
अन्य देयताएं	3,613.50	5,691.73	5,892.05	200.32	2,278.55
कुल देयताएं / आस्तियां	16,600.09	20,271.03	20,672.61	401.58	4,072.52
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,231.78	13,082.58	13,251.39	168.81	1,019.61
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	1,000.41	1,376.57	1,376.57	—	376.16
रूपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	3,217.58	5,631.14	5,843.93	212.79	2,626.35
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	7.29	0.55	1.13	0.59	-6.15
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	50.31	69.13	87.55	18.41	37.23
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.30	—	—	—	-0.30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	5.04	27.02	27.00	-0.02	21.96
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	13.20	13.20	13.20	—	—
अन्य आस्तियां	74.18	70.84	71.84	1.00	-2.33

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	23 मार्च 2012 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2011 की समाप्ति पर		वर्ष	
	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	14,970.2	295,140.0	176.2	318.6	1,360.1	-9,678.1	-834.5	-1,548.7	1,408.0	-8,341.7
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	13,223.4	259,740.5	168.5	251.2 *	974.6	-14,589.3	-783.1	-3,192.8	1,002.8	-13,957.5
(ख) स्वर्ण \$	1,376.6	28,127.7	—	—	350.9	5,155.3	-41.5	1,507.4	376.2	5,985.0
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	226.5	4,448.5	4.1	28.6	22.5	-120.5	-9.4	19.5	-7.1	-783.8
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	143.7	2,823.3	3.6	38.8	12.1	-123.6	-0.5	117.2	36.1	414.6

+ आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹ 28.0 बिलियन/ 550 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।

* अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि/मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई, 2003 से 26 मार्च, 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संयवहार के अनुसार 2 अप्रैल, 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।

@ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।

\$ इसमें ₹314.6 बिलियन (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

मद	9 मार्च 2012 को बकाया #	पखवाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अक तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2011	2012
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जामाराशियां	785.9	9.1	52.7	48.5	104.6	83.8
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	322.8	50.4	-80.3	25.5	15.7	79.5
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	65.3	-60.9	11.2	-6.0	10.7	-5.7
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	58,533.7	379.1	6,515.0	6,454.0	7,350.5	7,090.5
		(0.7)	(14.5)	(12.4)	(16.7)	(13.8)
मांग	5,989.8	25.4	-454.7	-427.2	305.9	-11.6
मीयादी	52,543.9	353.7	6,969.7	6,881.3	7,044.7	7,102.1
उधार ⁽³⁾	1,826.0	12.7	249.9	512.6	248.9	533.3
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,560.8	123.6	44.5	142.7	-1.5	222.1
रिज़र्व बैंक से उधार	69.4	14.2	39.9	19.1	39.3	29.1
रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,480.2	-1.6	358.8	-14.9	400.3	51.7
पास में नकदी	364.1	-0.4	39.1	60.7	46.6	69.2
रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	3,116.1	-1.2	319.7	-75.6	353.8	-17.5
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	638.9	-3.0	-89.3	77.5	-11.7	104.0
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	226.2	36.0	-26.1	60.1	15.7	75.6
बैंकों को अग्रिम	96.0	27.6	-16.9	-29.7	37.1	14.0
अन्य आस्तियां	666.7	-153.6	125.6	-24.0	187.6	96.4
निवेश⁽⁵⁾	17,651.3	201.9	1,120.2	2,635.1	1,083.5	2,683.5
		(1.2)	(8.1)	(17.5)	(7.8)	(17.9)
सरकारी प्रतिभूतियों में	17,621.2	202.6	1,139.9	2,649.7	1,103.3	2,697.3
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	30.1	-0.7	-19.7	-14.6	-19.8	-13.8
बैंक ऋण	44,866.8	791.5	6,131.8	5,446.0	7,281.2	6,287.2
		(1.8)	(18.9)	(13.8)	(23.3)	(16.3)
खाद्य ऋण	838.4	6.3	175.8	195.5	166.7	177.6
खाद्येतर ऋण	44,028.4	785.3	5,955.9	5,250.4	7,114.4	6,109.5
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	43,208.6	719.6	5,925.7	5,268.6	6,996.4	6,061.4
देशी बिल - खरीदे गए	164.8	7.6	11.0	30.4	16.0	33.7
भुनाए गए ⁽⁶⁾	910.5	49.7	136.1	111.8	170.7	152.2
विदेशी बिल - खरीदे गए	187.1	6.9	25.4	1.3	13.9	0.4
भुनाए गए	395.8	7.8	33.7	33.9	84.2	39.5
नकद-जमा अनुपात	5.95					
निवेश-जमा अनुपात	30.16					
ऋण - जमा अनुपात	76.65					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिज्म बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी: 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

मद/सप्ताहांत	2011	2012					
	18 मार्च	10 फरवरी	17 फरवरी	24 फरवरी	2 मार्च	9 मार्च	16 मार्च
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	4.75
बैंक दर	6.00	6.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
आधार दर ⁽²⁾	8.25/9.50	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	7.75/9.50	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25
मांग मुद्रा दर (भारंकिट औसत) ⁽⁴⁾	7.12	8.70	8.81	8.73	8.97	8.84	8.89

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारंकिट औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारंकिट औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(₹ बिलियन)

मद	2011 – 2012			2010 – 2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2) – (1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5) – (4)
	2011	2012		2010	2011	
	25 मार्च	9 मार्च		26 मार्च	11 मार्च	
	1	2	3	4	5	6
1 बैंक ऋण	39,420.8	44,866.8	5,446.0	32,447.9	38,579.6	6,131.8
			(13.8)			(18.9)
क. खाद्य ऋण	642.8	838.4	195.5	484.9	660.7	175.8
ख. खाद्येतर ऋण	38,778.0	44,028.4	5,250.4	31,963.0	37,918.9	5,955.9
			(13.5)			(18.6)
2 निवेश	1,476.0	1,716.5	240.5	1,180.7	1,384.3	203.6
क. वाणिज्यिक पत्र	123.1	210.6	87.5	251.9	130.5	-121.4
ख. निम्न (क + ख) द्वारा जारी शेयर	413.2	370.7	-42.4	301.1	370.6	69.6
(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	89.6	71.8	-17.8	46.2	83.8	37.6
(ख) निजी कंपनी क्षेत्र	323.5	298.9	-24.6	254.8	286.8	32.0
ग. निम्न (क + ख) द्वारा जारी बांड/डिबेंचर	939.8	1,135.3	195.5	627.8	883.2	255.5
(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	279.5	428.8	149.3	227.1	252.2	25.1
(ख) निजी कंपनी क्षेत्र	660.3	706.5	46.2	400.7	631.0	230.3
3 कुल (1ख + 2)	40,254.0	45,745.0	5,490.9	33,143.7	39,303.2	6,159.5
			(13.6)			(18.6)
ज्ञापन मदें:						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	476.1	363.9	-112.2	528.9	1,056.5	527.6
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	313.0	385.7	72.8	326.0	287.4	-38.6
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	456.1	364.0	-92.2	309.0	394.4	85.4

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें – हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2012					वार्षिक वृद्धि (+) / ह्रास (-) प्रतिशत				
	19 मार्च	20 मार्च	21 मार्च	22 मार्च	23 मार्च +	19 मार्च	20 मार्च	21 मार्च	22 मार्च	23 मार्च +
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	50.1245	50.2545	50.5935	50.9055		—	-10.28	-10.96	-11.66	
यूरो	66.0025	66.5226	67.1366	67.4035		—	-4.65	-4.95	-5.08	
फेडरल की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	50.1200	50.2500	50.5550	50.9050		—	-10.28	-10.89	-11.67	
डॉलर { बिक्री	50.1300	50.2600	50.5650	50.9150		—	-10.28	-10.89	-11.67	
पौंड { खरीद	79.3700	79.7275	80.2825	80.7750		—	-8.68	-9.03	-9.22	
स्टर्लिंग { बिक्री	79.4050	79.7625	80.3125	80.8075		—	-8.68	-9.02	-9.21	
यूरो { खरीद	65.9975	66.4900	67.0875	67.4025		—	-4.63	-4.92	-5.10	
{ बिक्री	66.0300	66.5150	67.1100	67.4275		—	-4.61	-4.89	-5.08	
100 येन { खरीद	60.0875	60.2225	60.3775	61.0600		—	-8.40	-7.83	-9.00	
{ बिक्री	60.1225	60.2575	60.4125	61.0850		—	-8.39	-7.84	-8.95	
अमरीकी डॉलर का अंतर – बैंक वायदा प्रीमिया (वार्षिक प्रतिशत)										
1-माह	10.30	10.27	10.44	10.61						
3-माह	8.70	8.84	9.01	8.72						
6-माह	7.78	7.96	7.99	7.58						

— पिछले वर्ष के तदनुसूची दिन बाज़ार बंद।

+ बाज़ार बंद।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011	2012	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर -वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2011		2012	
	31 मार्च #	9 मार्च #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम 3	64,994.9	72,830.4	567.7	0.8	8,376.6	15.0	7,835.5	12.1	9,235.6	16.7	8,426.8	13.1
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,142.0	10,319.1	159.3	1.6	1,537.5	20.0	1,177.1	12.9	1,483.2	19.2	1,106.6	12.0
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,176.6	6,701.6	28.2	0.4	-428.3	-6.0	-475.0	-6.6	395.1	6.2	-49.8	-0.7
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	48,639.8	55,789.4	370.6	0.7	7,260.9	17.7	7,149.7	14.7	7,348.0	17.9	7,394.2	15.3
(iv) रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	36.5	20.3	9.7	91.1	6.5	17.1	-16.2	-44.4	9.3	26.5	-24.2	-54.4
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क + ख)	19,827.7	23,640.1	374.1	1.6	2,267.0	13.6	3,812.4	19.2	2,730.7	16.8	4,681.2	24.7
(क) रिज़र्व बैंक	3,965.5	5,052.1	168.4		1,014.9		1,086.5		1,504.7		1,921.3	
(ख) अन्य बैंक	15,862.2	18,588.0	205.7	1.1	1,252.1	8.6	2,725.9	17.2	1,226.0	8.4	2,759.9	17.4
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क + ख)	42,354.1	48,075.9	807.8	1.7	6,585.3	18.9	5,721.9	13.5	7,680.1	22.7	6,576.6	15.8
(क) रिज़र्व बैंक	21.6	39.4	5.2	—	2.4	—	17.8	—	-42.0	—	23.7	—
(ख) अन्य बैंक	42,332.4	48,036.5	802.6	1.7	6,582.8	18.9	5,704.1	13.5	7,722.2	22.9	6,552.8	15.8
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,933.4	14,799.0	179.5	1.2	977.8	7.6	865.6	6.2	917.7	7.1	1,006.6	7.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	127.2	137.2	—	—	13.2	11.7	9.9	7.8	14.2	12.7	11.3	9.0
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	11,247.6	13,821.8	793.5	6.1	1,466.7	17.2	2,574.2	22.9	2,107.1	26.8	3,848.8	38.6
जिनमें से :												
रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	3,683.5	5,575.7	200.1	3.7	693.9	23.0	1,892.2	51.4	473.1	14.6	1,865.4	50.3

* 20 मार्च 2009 से आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी: 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011	2012	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2011		2012	
			31 मार्च #	23 मार्च #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आरक्षित मुद्रा	13,768.2	14,148.3	236.7	1.7	1,404.4	12.2	380.1	2.8	1,905.4	17.2	1,187.4	9.2
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,496.6	10,722.2	-25.1	-0.2	1,551.4	19.4	1,225.6	12.9	1,532.0	19.1	1,175.3	12.3
(ii) रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,235.1	3,408.5	256.1	8.1	-143.6	-4.1	-826.6	-19.5	394.4	13.2	29.1	0.9
(iii) रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	36.5	17.6	5.7	47.9	-3.5	-9.2	-19.0	-51.9	-21.0	-37.8	-17.0	-49.2
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,965.5	5,171.0	248.5		1,048.0		1,205.5		1,455.0		2,007.1	
	3,940.3	5,179.9	257.4		1,041.2		1,239.5		1,533		2,022.9	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	73.2	127.5	18.4		43.7		54.3		23.0		58.9	
	51.6	87.9	18.4		39.4		36.3		50.6		36.8	
(iii) रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,285.7	14,627.8	168.8	1.2	912.3	7.4	1,342.1	10.1	932.2	7.6	1,396.1	10.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	127.2	137.2	—	—	13.2	11.7	9.9	7.8	13.2	11.7	11.3	9.0
(v) रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	3,683.5	5,915.2	198.9	3.5	612.8	20.3	2,231.7	60.6	518.0	16.6	2,286.0	63.0

* 20 मार्च 2009 से आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी: 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(₹ बिलियन)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+) / कमी (-) (5 - 10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19 मार्च 2012	1	65	1,601.75	65	1,601.75	8.50	3	14.05	3	14.05	7.50	1,587.70	—	-1,587.70
20 मार्च 2012	1	68	1,499.70	68	1,499.70	8.50	3	5.05	3	5.05	7.50	1,494.65	—	-1,494.65
21 मार्च 2012	1	59	1,488.20	59	1,488.20	8.50	1	10.00	1	10.00	7.50	1,478.20	22.50	-1,500.70
22 मार्च 2012	4	63	1,353.75	63	1,353.75	8.50	1	0.95	1	0.95	7.50	1,352.80	91.95	—
22 मार्च 2012 \$	4	35	534.65	35	534.65	8.50	—	—	—	—	—	534.65	—	-1,979.40

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा।

\$ सूचना देने के लिए नियत शुक्रवार को एलएएफ के अंतर्गत अतिरिक्त रिपो।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई/लागू नहीं

10. भारत सरकार खज़ाना बिलों की नीलामी

(₹ बिलियन)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91-दिवसीय खज़ाना बिल													
2011-2012													
6 जुलाई	8 जुलाई	70.00	94	276.21	2.50	29	70.00	2.50	—	72.50	98.00	8.1857	1,218.60
5 अक्टूबर	7 अक्टूबर	40.00	69	147.55	15.00	41	40.00	15.00	—	55.00	97.94	8.4364	1,147.19
4 जनवरी	6 जनवरी	60.00	95	143.73	17.10	65	60.00	17.10	—	77.10	97.93	8.5201	893.25
21 मार्च	22 मार्च	80.00	114	249.26	20.13	47	80.00	20.13	—	100.13	97.81	8.9807	1,296.09
182-दिवसीय खज़ाना बिल													
2011-2012													
6 जुलाई	8 जुलाई	30.00	75	71.78	—	44	30.00	—	—	30.00	96.05	8.2692	342.51
12 अक्टूबर	14 अक्टूबर	40.00	56	72.93	—	41	40.00	—	—	40.00	95.90	8.6177	421.00
4 जनवरी	6 जनवरी	40.00	99	111.88	—	50	40.00	—	—	40.00	96.01	8.4215	463.51
14 मार्च	16 मार्च	40.00	72	124.25	—	16	40.00	—	—	40.00	95.87	8.6613	510.01
364-दिवसीय खज़ाना बिल													
2011-2012													
13 जुलाई	15 जुलाई	30.00	107	131.41	—	20	30.00	—	—	30.00	92.41	8.2360	533.08
5 अक्टूबर	7 अक्टूबर	40.00	93	106.45	—	43	40.00	—	—	40.00	92.18	8.5185	651.61
11 जनवरी	13 जनवरी	40.00	94	97.88	—	50	40.00	—	—	40.00	92.53	8.2007	833.71
21 मार्च	22 मार्च	40.00	104	194.10	0.01	9	40.00	0.01	—	40.01	92.27	8.4006	903.82

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खज़ाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खज़ाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक/364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक/365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(₹ बिलियन)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10 मार्च	11 मार्च	12 मार्च	13 मार्च	14 मार्च	15 मार्च	16 मार्च	17 मार्च	18 मार्च	19 मार्च	20 मार्च	21 मार्च	22 मार्च	23 मार्च
23 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष	3,173.9	3,173.9	3,131.8	3,044.6	3,073.3	3,044.4	2,984.4	2,964.0	2,964.0	2,794.6	2,705.4	2,733.8	3,168.8	3,234.0

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(₹ बिलियन)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	व्याज दर (प्रतिशत)@
	1	2	3
8 अप्रैल 2011	4,445.3	612.9	8.00 - 11.70
15 जुलाई 2011	4,059.7	284.3	8.20 - 10.10
7 अक्टूबर 2011	3,873.1	416.9	8.80 - 9.85
13 जनवरी 2012	3,748.9	112.4	9.25 - 10.10
27 जनवरी 2012	3,909.4	195.3	9.50 - 10.07
10 फरवरी 2012	3,948.8	214.0	9.61 - 10.45

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(₹ बिलियन)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत)@
	1	2	3
15 जनवरी 2011	989.1	229.1	6.60 - 11.95
15 अप्रैल 2011	1,055.2	308.4	7.15 - 12.30
15 जुलाई 2011	1,283.5	298.2	8.10 - 13.25
15 अक्टूबर 2011	1,664.6	292.4	8.75 - 13.50
15 जनवरी 2012	1,528.3	274.7	9.00 - 14.50
31 जनवरी 2012	1,498.8	159.7	8.66 - 13.25

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05 = 100)

मद	भार	2011	2012	निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव		
		फरवरी	फरवरी #	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
	1	2	3	4	5	6
सभी पण्य	100.00	148.1	158.4	0.4	6.0	7.0
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	189.6	201.5	0.9	7.1	6.3
(i) फल और सब्जियां	3.84	165.1	165.6	2.5	-0.2	0.3
ईंधन और विद्युत	14.91	153.5	173.2	0.2	9.9	12.8
विनिर्मित उत्पाद	64.97	134.0	141.7	0.4	4.5	5.7
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	163.0	169.8	-0.5	3.6	4.2
(ii) खाद्य तेल	3.04	129.4	139.2	-0.1	8.1	7.6
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	151.2	160.2	-0.1	4.2	6.0
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	139.1	161.1	1.6	14.8	15.8

टिप्पणी: आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2011	2012				
	23 मार्च	19 मार्च	20 मार्च	21 मार्च	22 मार्च	23 मार्च
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	18206.16	17273.37	17316.18	17601.71	17196.47	17361.74
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.95=1000)	5480.25	5257.05	5274.85	5364.95	5228.45	5278.20

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यावर्त

(₹ बिलियन)

	समाप्त सप्ताह						
	10 फरवरी 2012	17 फरवरी 2012	24 फरवरी 2012	2 मार्च 2012	9 मार्च 2012	16 मार्च 2012	23 मार्च 2012
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
(क) लिए गए उधार	102.0	132.8	136.6	173.8	151.8	168.6	186.6
(ख) दिए गए ऋण	115.2	146.8	148.5	189.2	162.9	178.4	192.9
2. प्राथमिक व्यापारी							
(क) लिए गए उधार	13.3	14.0	11.9	15.4	11.1	9.8	6.4
(ख) दिए गए ऋण	0.1	—	—	—	—	—	0.1
3. कुल							
(क) लिए गए उधार	115.3	146.8	148.5	189.2	162.9	178.4	193.0
(ख) दिए गए ऋण	115.3	146.8	148.5	189.2	162.9	178.4	193.0

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यावर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

3. इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यावर्त (अंकित मूल्य)@

(₹ बिलियन)

मद	समाप्त सप्ताह					
	17 फरवरी 2012	24 फरवरी 2012	2 मार्च 2012	9 मार्च 2012	16 मार्च 2012	23 मार्च 2012
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन	1,555.5	1,127.2	1,221.4	789.1	1,375.1	791.0
(क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,451.4	999.2	1,066.5	674.0	1,182.6	654.8
(ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	11.9	23.9	13.4	27.1	50.1	27.3
(ग) 91-दिवसीय खज़ाना बिल	32.0	65.4	87.3	51.5	77.9	86.1
(घ) 182-10 दिवसीय खज़ाना बिल	11.2	3.4	27.0	13.4	14.4	3.3
(ङ) 364-दिवसीय खज़ाना बिल	48.9	35.3	27.2	23.2	50.1	19.5
II. भारतीय रिज़र्व बैंक*	8.9	100.5	124.2	119.3	116.3	6.9

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)#

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिक्						अंतरबैंक					
	एफ सी वाई / आई एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आई एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
5 मार्च 2012	2,541	1,046	385	260	152	123	6,211	6,720	877	2,898	1,085	67
6 मार्च 2012	2,369	1,309	392	266	142	178	6,741	6,856	1,176	3,347	2,277	176
7 मार्च 2012	2,738	1,184	756	367	221	230	6,053	8,073	1,337	2,634	2,004	154
8 मार्च 2012 +												
9 मार्च 2012	3,793	624	594	162	303	269	6,460	7,905	541	2,761	1,701	97
बिक्री												
5 मार्च 2012	2,807	1,008	413	265	229	124	5,792	7,463	855	2,979	1,040	69
6 मार्च 2012	3,586	1,539	175	263	201	178	5,916	7,389	958	3,159	2,150	81
7 मार्च 2012	2,886	1,316	581	362	230	231	5,505	8,757	1,589	2,671	1,920	159
8 मार्च 2012 +												
9 मार्च 2012	3,201	1,293	648	160	355	277	6,154	8,164	789	2,764	1,614	99

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा । आइ एन आर = भारतीय रुपया। + बाज़ार बंद।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिक् और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(₹ बिलियन)

	समाप्त सप्ताह					
	17 फरवरी 2012	24 फरवरी 2012	2 मार्च 2012	9 मार्च 2012	16 मार्च 2012	23 मार्च 2012
	1	2	3	4	5	6
राशि	8.3	11.3	23.0	6.9	7.2	18.6

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खज़ाना बिल (अंकित मूल्य)

(₹ बिलियन)

धारक	23 मार्च 2012					कुल खज़ाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खज़ाना बिल				कुल (1+2+3+4)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
	1	2	3	4			
बैंक	—	437.4	119.9	209.2	766.4	-27.4	332.2
प्राथमिक व्यापारी @	—	324.0	193.5	461.9	979.4	-42.9	413.5
राज्य सरकारें	1,171.9	305.9	—	4.2	1,482.0	134.7	367.1
अन्य	14.0	228.8	196.6	228.6	668.0	125.3	400.0

@ बैंक प्राथमिक व्यापारी सहित

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि – 2011-12

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-12 (23 मार्च 2012 तक)	2010-11 (25 मार्च 2011 तक)	2010-11	2011-12 (23 मार्च 2012 तक)	2010-11 (25 मार्च 2011 तक)	2010-11
	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	5,100.0	4,370.0	4,370.0	4,364.2	3,254.1	3,254.1
2. भा.रि.बैं. के खुला बाजार परिचालन* :						
बिक्री	81.1	113.0	115.7			
खरीद	1,418.3	785.4	788.0			

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)@

(₹ बिलियन)

मद	16 मार्च 2012 को समाप्त सप्ताह			23 मार्च 2012 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सांकेतिक**	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	—	—	—	0.3	9.4161	9.4161
2012-13	16.3	8.9537	9.3287	8.7	9.0046	9.8602
2013-14	0.1	8.1526	8.2256	0.2	8.1193	8.1580
2014-15	5.3	8.0539	8.1800	3.2	8.1450	8.1931
2015-16	0.6	8.1807	8.2170	1.2	8.2750	8.4342
2016-17	0.7	8.2803	8.4511	1.5	8.3628	8.4500
2017-18	6.3	8.3307	8.4485	2.6	8.4491	8.4971
2018-19	15.3	8.3409	8.5000	20.0	8.3757	8.5368
2019-20	10.8	8.2960	8.4078	9.5	8.3989	8.5590
2020-21	1.7	9.6765	9.6943	1.6	9.6861	9.7654
2021 से आगे	534.3	8.2467	8.7366	278.6	8.2984	8.6625
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	25.0	8.7043	8.9900	13.7	8.7297	9.0200
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	3.2	8.1467	8.9978	1.1	8.3696	8.8516
ख) 15 - 91 दिन	38.0	8.1059	9.0646	44.5	7.9803	9.2996
ग) 92 - 182 दिन	6.5	8.5499	8.7200	1.8	8.6199	8.9700
घ) 183 - 364 दिन	23.6	8.2800	8.5000	7.1	8.3999	8.5500
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	—			3.4		
: खरीद	116.3			3.5 +		
III. रिपो लेनदेन # (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	400.7	6.00 (1)	9.00 (8)	258.3	7.00 (1)	10.75 (30)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	11.1	8.60 (1)	8.70 (3)	9.8	8.60 (1)	9.50 (29)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	112.2	8.50 (1)	8.80 (3)	179.7	7.00 (1)	9.60 (4)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	143.2	8.50 (1)	8.80 (3)	159.9	7.50 (1)	9.40 (4)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	8.9	8.50 (1)	8.60 (1)	85.3	7.76 (1)	9.50 (4)
IV: भा.रि.बैं.: रिपो ✱ ^	6,919.3	8.50	8.50	6,478.1	8.50	8.50
: रिवर्स रिपो !	16.1	7.50	7.50	30.1	7.50	7.50

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल हैं।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (%वार्षिक) गैर मानक समूह (₹ 0.05 बिलियन से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

✱ कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बाँड (तेल बाँड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹ 475 और ₹ 1,425

तथा विदेश में क्रमशः 30 अमरीकी \$ और 90 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 28 मुंबई समाचार मार्ग, राजा बहादुर बिल्डिंग, फोर्ट, मुम्बई - 400 023 में मुद्रित और भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।